



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 335] नई दिल्ली, शुक्रवार, प्रवतूबर 28, 1977 कार्तिक 6, 1899

No. 335] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 28, 1977/KARTIKA 6, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग सफलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 28th October 1977

G.S.R. 654 (E)—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with Sub-rule (1), and the first proviso to sub-rule (2), of the rule 4 of the India Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of 'West Bengal' hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of cadre Strength) Regulations, 1955, namely :-

1 (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Seventeenth Amendment Regulations, 1977

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2 In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1977 under the heading 'West Bengal' and for the existing entries, namely —

"1 Commissioner-Secretaries

10

2 Special Commissioner for Finance and ex officio Secretary, Finance and Excise Departments	1
3 Development and Planning Commissioner and ex-officio Secretary Development and Planning Departments	1
4 Secretaries to Government	8
5 Special Secretary (Finance)	1

the following entry shall be substituted —

'Secretaries to Government	21
----------------------------	----

[No 11031/27/77-AIS(II)-A]

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचनाएँ

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 1977

सा० का० नि० 654(अ) — भारतीय प्रशासन सेवा (सर्वग) नियम, 1954 के नियम 4 के उप नियम (2) के प्रथम परन्तुक और उपनियम (1) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासन सेवा (सर्वग सख्या का नियतन) विनियम 1955 में आगे सशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है अर्थात् —

1 (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (सर्वग) सशोधन सख्या का नियतन सहित सशोधन विनियम 1977 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2 भारतीय प्रशासन सेवा (सर्वग का नियतन) विनियम, 1955 को अनुसूची में "पश्चिम बंगाल" शीर्षक के अधीन विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर —

"1. आयुक्त-सचिव	10
2 विशेष आयुक्त वित्त तथा उत्पादक शुल्क और पदेन सचिव वित्त उत्पादक शुल्क विभाग	1
3 विकास तथा योजना आयुक्त तथा पदेन सचिव विकास और योजना विभाग	1
4 सचिव	8
5 विशेष सचिव (वित्त)	1"

निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी —

"सचिव	21"
-------	-----

GSR 655 (E)—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 3 of the All India Services Act 1951 (61 of 1951) read with rule 11 of the Indian Administrative Service (Pay) Rules 1954 the Central Government, in consultation with the Government of West Bengal hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, namely—

1 (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) twelfth Amendment Rules 1977

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2 In the Indian Administrative Service (Pay) Rules 1954—

(a) In Schedule III-A Posts carrying pay above the time scale in the Indian Administrative Service under the State Governments in the Table for the entry "West Bengal" occurring in the first column and the corresponding entries in the second and third columns, the following shall be deleted, namely—

"Commissioner-Secretaries"

"Special Commissioner for Finance and ex officio Secretary, Finance and Excise Departments"

"Development and Planning Commissioner and ex officio Secretary, Development and Planning Departments"

"Special Secretary (Finance)"

[No 11031/27/77-AIS(II)-B]

K. L. NEGI, Under Secy

सा० का० नि० 655(अ) — भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 11 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएँ अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

1 (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) बारहवा संशोधन विनियम, 1977 है ।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2 भारतीय प्रशासन सेवा वेतन नियम 1954 के साथ संलग्न अनुसूची III-क में,—

(क) राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासन सेवा के वरिष्ठ वेतनमान से अधिक वेतन वाले पद "शीर्षक के अधीन" पश्चिम बंगाल के सामने कालम दो तथा तीन में, निम्नलिखित विद्यमान प्रविष्टियाँ हटा दी जाएगी —

"आयुक्त सचिव

विशेष आयुक्त वित्त तथा उत्पादक शुल्क और पदेन सचिव

वित्त उत्पादक शुल्क विभाग

विकास तथा योजना आयुक्त तथा पदेन सचिव
विकास और योजना विभाग
विशेष सचिव, (वित्त)"

[सं 11031/27/77-अ० भा से (II)-ख]

के० एल० नेगी, अवर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977